



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ, 1941 (श०)

संख्या- 77 राँची, बुधवार,

5 फरवरी, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

24 जनवरी, 2020

संख्या- 5/आरोप-1-154/2016 का० 472-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती ब्रजलता, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-पटना), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कैरो, लोहरदगा के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-1910, दिनांक 04.05.2016 के आलोक में इनके द्वारा अंचल अधिकारी, कैरो, लोहरदगा से अंचल अधिकारी, मंडरो, साहेबगंज के पद पर स्थानांतरण के पश्चात अधिसूचित पद पर योगदान नहीं देने, पुनः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-4377, दिनांक 04.08.2016 के आलोक में इनके द्वारा अंचल अधिकारी, मंडरो, साहेबगंज से अंचल अधिकारी, भंडरा, लोहरदगा के पद पर स्थानांतरण के पश्चात अधिसूचित पद पर योगदान नहीं देने, 02 वर्षों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप, जैसा कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्रीमती ब्रजलता के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती ब्रजलता को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्रीमती ब्रजलता द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्रीमती ब्रजलता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु उप सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
